

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, युवाओं को सहयोग और सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ, पहला यूथ डे आयोजित करेगी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (21 अगस्त, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की कोविड-19 यूथ स्पोर्ट टास्क फोर्स (COVID-19 Youth Support Task Force), वीरवार, 3 सितम्बर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, यूथ डे (Youth Day) पेश कर रही है! स्पीकरों के रोमांचक समूहों और ऑनलाइन स्ट्रीम किए जाने वाले ओपन सवाल-जवाब के लिए हम से जुड़ें।

यूथ डे की मेजबानी, सिटी टी.वी. (City TV) की क्रिस्टीना होवोरन (Cristina Howorun) द्वारा की जा रही है। यह युवाओं के लिए, 2020 में उम्मीद की कहानियां सुनने, निपटने के तरीके सीखने और प्रेरित रहने की आभासी (वर्चुअल) जगह है। मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), सिटी काउंसलर शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams) और सिटी काउंसलर हरकीरत सिंह (Harkirat Singh) की टिप्पणियां सुनें। साथ ही, नीचे दिए पांच खास विषयों पर, पांच विशेषज्ञ स्पीकरों से कहानियां सुनें।

- बेल पेश करता है मेंटल हेल्थ – विशेषज्ञ योना बड (Yonah Budd) के साथ, प्लान बी. (Plan B) के साथ चिंता से छुटकारा पाएं (overcome with anxiety)
- वन वॉयस वन टीम यूथ लीडरशिप ऑर्गेनाइज़ेशन (One Voice One Team Youth Leadership Organization) के संस्थापक ऑर्लैंडो बोवेन (Orlando Bowen) के साथ एंटी-जातिवाद (Anti-Racism)
- प्रसिद्ध मेजबान, लेखक और निर्माता डैनियल पिल्लई (Daniel Pillai) के साथ LGBTQ+समानता (LGBTQ+ Equality)
- प्रभाव डालने वाली हस्तियों और फैशन गुरु द सैंडी लॉयन (The Sandy Lion) के साथ पारदर्शता (Transparency)
- विविधता और भागीदारी संबंधी प्रेरक स्पीकर एंथनी मैकलीन (Anthony McLean) के साथ धौंस (Bullying)

दोपहर बाद, सभी स्पीकरों को पेश करते हुए, ओपन सवाल-जवाब में शामिल होने के साथ समाप्ति होगी।

ब्रैम्पटन यूथ डे, गर्व के साथ बेल (BELL), सी.एन. (CN), आर.बी.सी. (RBC) और ई.बी. गेम्स (EB Games) द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है।

शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। कृपया हाजिरी की पुष्टि करने के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लॉगिन जानकारी प्राप्त करने हेतु, events@brampton.ca पर ईमेल करें। कार्यक्रम और स्पीकर संबंधी पूरे विवरणों के लिए, brampton.ca/bramptonyouthday पर जाएं।

कोविड-19 यूथ स्पोर्ट टास्क फोर्स

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की कोविड-19 यूथ स्पोर्ट टास्क फोर्स की सह-मेजबानी, सिटी काउंसलर, शार्मेन विलियम्स और सिटी काउंसलर, हरकीरत सिंह द्वारा की जा रही है। टास्क फोर्स, ब्रैम्पटन के 14 से 29 वर्ष के युवाओं की आवश्यकताओं को सहयोग करती है। यह

युवाओं को घर में ऑनलाइन गतिविधियों में व्यस्त रखते हुए, उन्हें सेवा देने वाले 40 से अधिक लोकल संगठनों से संपर्क करते हुए, कोविड-19 महामारी के दौरान संसाधन और सहयोग प्रदान करती है। अधिक जानकारी के लिए, [यहां क्लिक करें \(Click here\)](#)।

यूथ फ्रेंडली कम्युनिटी कम्युनिटी की पदवी

इस वर्ष, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, प्ले वर्क्स (Play Works) द्वारा प्लैटिनम स्टेटस यूथ फ्रेंडली कम्युनिटी (Platinum Status Youth Friendly Community) की पदवी मिली है। यह पार्क्स एंड रेक्रिएशन ओनटैरियो (Parks and Recreation Ontario) द्वारा हिमायत वाला प्रोग्राम है। यह तीसरी बार है, जब सिटी को युवाओं के लिए वृद्धि और विकास के अवसरों के लिए, इसकी शानदार प्रतिबद्धता के लिए मान्यता दी गई है। सिटी, इस साल टॉप प्लैटिनम पदवी प्राप्त करने वाले तीन समुदायों में से एक है। अधिक जानने के लिए [यहां क्लिक करें \(Click here\)](#)।

हवाले

“युवाओं के लिए अवसरों का लीडर होने के तौर पर, ब्रैम्पटन एक बार फिर, हमारे समुदाय में युवाओं के लिए, हमारे पहले यूथ डे के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविड-19 यूथ स्पोर्ट टास्क फोर्स, कोविड-19 महामारी के दौरान ब्रैम्पटन के युवाओं को, अर्थपूर्ण तरीकों से व्यस्त रखने और प्रगति करने में उनकी मदद के लिए बनाई गई थी। यह ऑनलाइन कार्यक्रम, इस प्रतिबद्धता का सीधा परिणाम है। मैं हर किसी को इस प्रेरणादायक दोपहर में शामिल होने की सलाह देता हूँ।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमें पता है कि 2020, ब्रैम्पटन में युवाओं के लिए बेहद मुश्किल समय रहा है। यह कार्यक्रम, कोविड-19 यूथ स्पोर्ट टास्क फोर्स के द्वारा, युवाओं के साथ बातचीत के परिणाम के तौर पर, हमारे समुदाय में असाधारण युवाओं को सहयोग करने और सशक्त बनाने में मदद के लिए तैयार किया गया था। हमने अपने समुदाय की जरूरतों को सुना और हम वह सब कुछ प्रदान कर रहे हैं।”

- शारमैन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; को-लीड, कोविड-19 यूथ स्पोर्ट टास्क फोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन के युवा बेबाक, जोशीले और प्रेरणादायक हैं। हमने उनके सुनहरे भविष्य को सहयोग करने और उस गति को कायम रखने में मदद के लिए, खास विषयों पर विशेषज्ञ स्पीकरों को बुलाया है। कोविड-19 यूथ स्पोर्ट टास्क फोर्स, ब्रैम्पटन में युवाओं को सहयोग करने के लिए समर्पित है।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; को-लीड, कोविड-19 यूथ स्पोर्ट टास्क फोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को यूथ डे पेश करने पर गर्व है। इसमें आज के युवाओं के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विषयों पर स्पीकरों के समूह को जोड़ा जा रहा है। ब्रैम्पटन के युवाओं के प्रति, काउंसिल और सिटी के स्टाफ के समर्पण ने इस कार्यक्रम को संभव बनाया है। आप इससे चूकना नहीं चाहेंगे।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca